

Date: June 27, 2023

To

The BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai-400001 Scrip Code: 540203 The National Stock Exchange India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra(E), Mumbai-400051 NSE Symbol: SFL

Subject: Publication of notice of 51st Annual General Meeting to be held over Video Conference

Dear Sir/Madam,

Please find attached Newspaper advertisement of notice of Fifty-First (51st) Annual General Meeting (AGM).

The newspaper publication are also available on our website at the following link https://www.sheelafoam.com.

Thanking you. Yours faithfully,

For Sheela Foam Limited

(Md. Iquebal Ahmad)
Company Secretary and Compliance Officer

FINANCIAL EXPRESS

New RBI deputy guv Janakiraman gets six departments

FE BUREAU Mumbai, June 26

NEWLY-APPOINTED

RESERVE BANK deputy governor Swaminathan Janakiraman will look after six departments, including supervision and financial inclusion, the central bank said in a release on Monday.

The other portfolios allocated to Janakiraman are inspection, premises, Rajbhasha and consumer education and protection.

Swaminathan, a former managing director at State Bank of India, was appointed the RBI DG last week after term of former deputy governor Mahesh Kumar Jain ended. His appointment as the RBI DG will be effective from June 26 onwards, the release said.

Following the rejig, DG

Michael Patra will be in charge of 11 departments, including co-ordination, corporate strategy and budget, economics and policy research, department of statistics and information management, deposit insurance and credit guarantee corporation, financial markets operations and regulation, among others. T Rabi Sankar, too, will hold

Das was answering a ques-11 portfolios including those tion on the RBI having turbuof central security cell, curlent relationship with the Cenrency management, external tre in the past, and whether it is possible to maintain central investments, operations, government and bank accounts, bank's independence and avoid fiscal dominance. information technology and fintech department, among others.

"The relationship between the central bank and government, in any scenario, in any country is one of interdependence. Therefore, the relationship has to be based on a constant dialogue. To bring about improvements in the financial sector, we need legislative changes," Das said.

PIYUSH SHUKLA

Mumbai, June 26

THE

RELATIONSHIP

BETWEEN the central bank

and government in any coun-

try is one of interdependence.

Therefore, there needs to be a

constant dialogue between the

two institutions, Reserve Bank

of India (RBI) governor told

financial magazine Central

Banking in an interview.

The strained relationship between RBI and Centre peaked during the end of tenure of former RBI Governor Urjit Patel, who resigned about nine-months ahead of his three-year term in 2018 citing personal reasons. Patel, who was the twenty-fourth RBI Governor, reportedly had the shortest tenure that any governor had since 1992. His move

MITHUN DASGUPTA

FUTURE GENERALI INDIA has

the choice to "reward" its chan-

nel partners for building better

customer franchise across

product categories in different

geographies as the insurer is

currently compliant with the

new expenses of management

"We are currently compliant

guorum under Section 103 of the Act


Limited at www.evoting.nsdl.com

Kolkata, June 26

CLOSE COORDINATION

RBI, govt need to have

constant dialogue: Das



Cryptocurrencies could cause financial stability challenges for emerging market economies.

was later followed by former deputy governor Viral Acharya in 2019, who quit from his role citing personal reasons about six months ahead of his term Speaking about the current

dynamics of communication with the Centre, Das said the RBI did not have certain powers to bring about necessary legal changes in the non-banking finance companies (NBFC) sector, which acted as an impediment in regulator's capacity to supervise the sector and thus it engaged with the Centre and brought in necessary amendments in the law. Further, necessary legal changes were also brought in the co-operative banking sector in consultation with the Centre, he said.

Similarly, the government that other non-bank lenders

"Central bank action also needs the central bank's

support in many situations,

Das said. "A dialogue does not

mean a compromise of auton-

omy at all. In the end, you

decide what you want to do.

But it is useful to share each

When asked about his key

priorities after becoming the

RBI Governor in 2019, Das said

the regulator was primarily

tasked with two main chal-

lenges—GDP growth showing

moderation signs and severe

liquidity squeeze in the after-

math of collapse of conglom-

erate Infrastructure Leasing &

Financial Services. "There was

no liquidity flow. But more

than that, a lack of confidence

was slowly building up in the

system. There were worries

being expressed all around

with the EoM regulations,"

Future Generali India Insur-

ance managing director and

CEO Anup Rau told FE. Sector

regulator Irdai in March

imposed a limit of 30% of gross

written premium as EoM for

general insurers and it became

effective from April 1,

2023.General insurance com-

panies with higher EoM will

have to submit plans to the reg-

ulator for bringing their

other's concerns," Das said.

Lastly, Das reiterated his stance on cryptocurrencies, saying it is purely a "speculative" activity and for emerging economies like India, cryptocurrencies have a serious consequences on country's monetary system and regulation of capital flows. "Ultimately, it will cause financial stability challenges for emerging market economies," Das

markets," Das said. In response, as inflation was well below 4% target, the RBI started with repo rate cuts to spur growth. Further, the RBI gradually infused liquidity in system to enhance market sentiment. However, the liquidity

might fail. There was a crisis of

confidence in the financial

injection had to be done in a very smooth manner, Das says, without showing any sign of panic or ringing any alarm

should not be seen as panicky," he said, adding that the RBI injected liquidity by buy/sell swap of foreign currency and bought about \$10 billion in two instalments. The buy and sell auction was for a period of three years, the governor said, which meant that the RBI gives back the dollars in three years and takes back rupees, thereby injecting liquidity for a finite

Future Generali compliant with new

In addition, the securities business is extremely volatile due to the market volatility. In comparison, the banking business is more stable and sound. For example, I-Sec shares have gone up by 15% in the past three years, whereas ICICI Bank's shares have zoomed

ICICI Sec soars 52-week high on delisting plans

MEGHNA SINHA Mumbai, June 26

ICICI BANK WILL consider delisting of its broking subsidiary ICICI Securities (I-Sec) in a board meeting on June 29. The I-Sec board will also consider it on the same day.

While the swap ratio will be decided in the board meeting, shares of I-Sec on Monday jumped nearly 11.34% intraday and hit a 52-week high of ₹647 before settling at ₹626. The share price of ICICI Bank closed 0.38% up at ₹927.

"The board... will consider a proposal for delisting the equity shares of I-Sec, a listed subsidiary company of the bank... under Chapter VI, Part C, Regulation 37 of the Sebi (delisting of equity shares) Regulations, 2021," said the bank in an exchange filing. Under Section 37, a listed company is allowed to offer its shares to shareholders of the delisting firm.

According to industry insiders, when ICICI Bank sold 25% of its shares in I-Sec five years ago, it needed to raise money to strengthen its balance sheet. Since the bank now has adequate capital, keeping the securities arm listed does not make sense anymore.

Moreover, as new players like Zerodha and others have shown, the securities business does not require much money for expansion. This is one of the reasons why peers like HDFC Bank or Axis Bank have not listed their securities arms.

250%.

"Given the macroeconomic situation, the possibility of banking stock doing better is high. Therefore, it is better for

PRUDENT MOVE

■ Since ICICI Bank now has adequate capital, keeping the securities arm listed does not make sense anymore

■ HDFC Bank or Axis Bank have not listed their securities arms

■ I-Sec shares have gone up by 15% in the past three years, while ICICI Bank's shares zoomed 250%

shareholders of I-Sec to have shares of ICICI Bank, which is a larger company with a stable stock price," said an industry

ICICI Securities reported a consolidated net profit of Rs 263 crore for the quarter ended March, down 23% compared to ₹340 crore reported in the year-ago period.

According to Alok Jain, founder-manager of wealth management company Smallcase and Weekend Investing the brokerage industry has changed a lot and has become highly competitive. Specifically, since the emergence of zero brokerage firms like Zerodha and Angel One, they have severely impacted the prospects of full-service private brokers. From this perspective, the business is not doing well, and it has been consistently losing market share.

"The major holdings in the company are either with promoters or institutions. Very few retail investors hold shares Their broking revenue has decreased due to low cash volumes. But they continue to diversify their business into the loan and general insurance segment. The exact reason will only be known after the board meet ing," said Rajesh Agarwal, head of research at AUM Capital.

Registered Office:604, Ashadeep, 9 Hailey Road, New Delhi 110001 Email: investorrelation@sheelafoam.com Phone: +91 11 2202 6875 Website: www.sheelafoam.com

SHEELA FOAM LIMITED

(CIN: L74899DL1971PLC005679)

Notice of the 51st Annual General Meeting to be held through Video Conference (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)

Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting (AGM) of the Members of Sheela Foam Limited is scheduled to be held on Tuesday, 18th July 2023 at 10.00 AM through Video Conference (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 2/2022, 10/2022 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business that will be set forth in the notice of the meeting

In Compliance with the above circulars, the Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for the financial year 2022-23 is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories participant(s). Shareholder holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depositary participants. Shareholder holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar i.e Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi 110058; Telephone 011-41410592,93, 011-49411000; Fax: 011-41410591 Email: delhi@linkntime.co.in; Website: www.linkintime.co.in. Members may note that the Notice of Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2022-23 will also be available on the Company's website www.sheelafoam.com; websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Ltd and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

Shareholder will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholder who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the shareholders. The details will also be made available on the website of the company in the Notice. Shareholders are requested to visit www.sheelafoam.com.

For Sheela Foam Limited

Date: 26" June, 2023 Place: Noida

Md. Iquebal Ahmad Company secretary and Compliance Officer



www.greenlamindustries.com

GREENLAM INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: 203, 2nd Floor, West Wing, Worldmark 1, Aerocity, IGI Airport, Hospitality District, New Delhi - 110 037 CIN: L21016DL2013PLC386045; Phone: +91-11-42791399 Website: www.greenlamindustries.com; E-mail: investor.relations@greenlam.com

(For the attention of the Equity Shareholders of the Company) Notice of Mandatory transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account

Notice is hereby given to the Members pursuant to provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules") as amended from time to time, that the equity shares in respect of which dividends have not been paid or claimed for seven consecutive years or more since the payment of final dividend for the financial year 2015-16 are liable to be transferred by the Company to Investor Education and Protection Fund ('IEPF'). In compliance of the said rules, the Company has individually communicated to the concerned shareholder (s) at their latest available address as per the records of the Company/Registrar and Share Transfer Agents that their shares are liable to be transferred to the In accordance with the requirements as set out in the Rules, the shares in

respect of which dividend declared for the financial year 2015-16 and which has remained unclaimed for seven consecutive years or more will be transferred to the IEPF Demat Account by 29.10.2023 as per the procedure stipulated in the Rules and subsequent notifications. In case no valid claim is received by 29.09.2023, your equity shares will be transferred to the IEPF DEMAT Account. The details of shares liable for transfer to the IEPF Demat Account are made available at the Company's website https://www.greenlamindustries.com/investor/unpaid-dividends.html. The Shareholders may please note that no claim shall lie against the

Company in respect of shares transferred to IEPF Authority Demat Account, unclaimed dividends, and any future dividends if any, in respect of the shares transferred. On transfer of the dividend and the shares to the IEPF Demat Account, the shareholders may claim the same by making an online application to IEPF Authority in e-Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in along with the fee as may be prescribed by the Central Government, from time to time.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of conversion into demat form and subsequent transfer of shares to IEPF-DEMAT Account as per IEPF Rules. Upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of shareholders holding shares in demat form, the transfer of shares to the demat account of IEPF authority shall be effected by the Company through

the respective Depositories by way of corporate action. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of such certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF, pursuant to IEPF Rules.

In case of any queries on the above, or to understand the claim procedure. the concerned shareholder may contact RTA Link Intime India Pvt. Ltd. Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058, Tel No.: 011-41410592, e-mail iepf.shares@linkintime.co.in.

For Greenlam Industries Limited

Prakash Kumar Biswal Company Secretary & Vice President-Legal



Notice

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of the

Company is scheduled to be held on Monday, July 31, 2023 at 3.00 p.m. (IST) through Video

Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'), to transact the business items as

mentioned in the AGM Notice, in compliance with the applicable provisions of the Companies

Act, 2013 read with the rules made thereunder ('the Act') and General Circular of Ministry of

Corporate Affairs ('MCA') dated December 28, 2022 along with other applicable Circulars

(collectively referred as 'MCA Circulars'), without the physical presence of the Members at a

common venue. Members attending the AGM through VC / OAVM will be considered for

Pursuant to MCA Circulars and SEBI Circular dated January 05, 2023, the Annual Report of

the Company for the financial year 2022-2023, including the AGM Notice and e-voting

instructions, will be sent electronically to all Members whose e-mail IDs are registered with

the Company / the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. KFin Technologies

Limited (formerly known as KFin Technologies Private Limited) ('KFinTech') / respective

Depository Participants ('DPs') unless any Member has requested for a physical copy. The

same will also be made available on the website of the Company at

https://www.nfil.in/investor/annu reports.html, BSE Limited at www.bseindia.com, National

Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and National Securities Depository

To receive the Annual Report, Notice of AGM and e-voting instructions electronically

Members who have not registered their e-mail IDs may note the following for registering the

(i) Members holding shares in demat form may register their e-mail IDs with their respective DPs.

(ii) Members holding shares in physical form may fill Form ISR 1 which, along with other

relevant details, is available at https://www.nfil.in/investor/downloads.html and

https://ris.kfintech.com/default.aspx and send the same to KFinTech through such

modes as specified in the Form. The correspondence details of KFinTech are: KFin

Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District

Nanakramguda, Hyderabad 500032; Tel.: + 91 40 6716 2222 / 40 2342 0814 / 1800 3094

Members holding shares as on the Cut-Off Date will have an opportunity to cast their votes

electronically on the Business Items set forth in the AGM Notice, either through remote e-

voting or e-voting at the AGM. In this regard, the detailed procedure for Members who hold

shares in demat form, physical form and Members whose e-mail IDs are not registered will be

The final dividend of ₹7/- per equity share of ₹2/- each, as recommended by the Board of

Directors of the Company for the financial year ended March 31, 2023, if declared at the

ensuing AGM, will be paid to the eligible Members on or after August 04, 2023. As per

Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015,

Friday, July 07, 2023 is fixed as the Record Date for ascertaining eligibility of Members for the

said final dividend. The dividend will be paid electronically to Members who have updated

their bank account details. In case of non-availability or non-updation of bank account details

by Members, the Company will dispatch dividend warrants/demand drafts to such Members

Members holding shares in physical form may note that if their bank account and other

requisite details are not updated with KFinTech by September 30, 2023, their folios will be

frozen and dealt with in accordance with SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37

dated March 16, 2023 which is available on the website of the Company at https://www.nfil.in/

(i) Members holding shares in demat form are requested to update their bank account

(ii) Members holding shares in physical form are requested to submit a covering letter, duly signed

Pursuant to the Income-tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend

income is taxable in the hands of Members w.e.f. April 01, 2020 and the Company is required

to deduct tax at source from dividend paid to Members at the prescribed rates as applicable.

In this regard, Members are requested to submit relevant documents to the Company as per

the detailed communication which has been sent by the Company to Members who have

registered their e-mail IDs. The same is also available on the Company's website at

TDS certificates regarding dividends declared in the past can be downloaded from

https://nfil.in/investor/comp announce.html and the website of the Stock Exchanges.

Form ISR 1 available at the web-link at https://www.nfil.in/investor/downloads.html and

https://ris.kfintech.com/default.aspx along with documents mentioned therein through

such modes as specified in the Form. The correspondence details of KFinTech are

investor/downloads.html and KFinTech at https://ris.kfintech.com/default.aspx

In order to receive direct credit of dividend amount in the bank account:

001; E-mail ID: einward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com

provided in the AGM Notice to enable them to cast their votes.

at their address registered with the Company/KFinTech/DPs.

Regd. Office: Office No. 602, Natraj by Rustomjee, Near Western Express Highway, Sir Mathuradas Vasanji Road, Andheri (East), Mumbai 400069, India Tel. No.022-66509999 Fax No.022-66509800, Website: www.nfil.in, E-mail: investor.relations@nfil.in CIN: L24110MH1998PLC115499

Anup Rau, MD & CEO



the norm is

expenses of

ment down

to the speci-

fied limit of

manage-

30%.

Rau said

[Pursuant to Section 230 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 6 and 7 of Companies (Compromises, Arrangements & Amalgamations) Rules 2016)] CA(CAA)/10(CHE)/2013

> COMPANY APPLICATION NO. C.A.(CAA) - 13-15/2023 N THE MATTER OF COMPOSITE SCHEME OF AMALGAMATION (Demerger and Amalgamation) NAMELY COMPOSITE SCHEME OF ARRAGEMENT BETWEEN

NO. 12. POONTHAMALLEE ROAD, EKKATUTHANGAL, CHENNAI - 600032

DEMERGED COMPANY-02) CKR RETAIL PRIVATE LIMITED CIN: U93000TN2022PTC154666

TRANSFEREE/RESULTANT COMPANY) AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS

NOTICE OF ADVERTISEMENT OF THE MEETING OF UNSECURED CREDITORS Notice is hereby given that by an order dated the 8th June 2023, the Hon'ble Chennai Bench of the Nationa

JMITED (DEMERGED COMPANY -01) for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the Composite Scheme of AMALGAMATION (Demerger and Amalgamation) namely Composite Scheme of Arrangement proposed to be made between the Cavinkare Private Limited (Demerged Company -01) And CK's Foods Private Limited (Demerged Company-02) With CKR Retail Private Limited Transferee;Resultant Company) And Their Respective Shareholders And Creditors

Creditors of CAVINKARE PRIVATE LIMITED (DEMERGED COMPANY -01) will be held at No.12. Poonthamalie Road, Ekkatuthangal, Chennai – 600 032 on Friday the 28th day of July2023 at 10,00 A.M. at which time and place the said unsecured creditors are requested to attend the said meeting.

The NCLT has appointed, Mr. Varadharajan, Company Law Consultant, to be the Chairperson of the said Meeting. The above mentioned Scheme, if approved at the above meeting will be subject to the subsequent approval of the NCLT.

be entitled to exercise their votes at the venue of the meeting between 10 AM to 11 AM. Once the vote on the resolution is cast by the Creditor, he or she will not be allowed to change it subsequently.

Insecured Creditors, and the Explanatory Statement thereto in physical form to Unsecured Creditors as on the cut off date viz., 30th November 2022. A person who is not a Creditor of the Applicant Company as on the cut-off date should treat the notice of the meeting of the Creditors for information only.

Copies of the said Scheme, Notice and the Explanatory Statement, Form of Proxy, Attendance Slip and other annexures can be obtained free of charge at the Secretarial Department, CavinKare Private Limited, 12, Cenotaph Road, Teynampet, Chennai – 600 018. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Company at No.12, Poonthamallee Road, Elikatuthangal, Chennai 600 032 or at the Secretarial Department, CavinKare Private Limited, 12, Cenotaph Road, Teynampet, Chennal – 600 018, not later than 48 hours before the commencement of the meeting. It is further clarified that votes may be cast personally or by proxy at the meeting as provided in this notice.

The NCLT vide its Orders has appointed Mr. G Sudhir, Chartered Accountant as the Scrutinizer t invalid votes, if any, and forthwith submit the same to the Chairman of the meeting.

upon receipt of the Scrutinizer's report. By the order of the Board of Directors,

For Cavinkare Private Limited

DIN: 2197419 CavinKare private Limited, CIN: U24246TN1990PTC046613

S Prakash steps down as MD of Star Health

MITHUN DASGUPTA Kolkata, June 26

has also quit as the director.

AFTER VENKATASAMY JAGANNATHAN'S resignation as the chairman and CEO of Star Health and Allied Insurance earlier this month, S Prakash, one of the co-founders of the standalone health insurer, has also stepped down as the managing director. He

In a stock exchange filing, Star Health and Allied Insurance said its nomination and remuneration committee and board in the meeting on Monday approved the appointment of Prakash as strategic management executive of the company consequent to his relinquishment from the position of managing director and as director from the board. "The addendum agreement shall be effective from June 26, 2023," it added.

Jagannathan, founder of the company, tendered his resignation from the board from

Talking to FE, Prakash, a medical doctor, said he is planning to pursue his career in the healthcare field."I am with Star Health for over 15 years. In the last 30 years I have a mix of both medical and insurance. And with

this knowledge, I wanted to see that how best I can utilise it for the betterment of the community." "I am sort of a co-founder of Star Health.

We had created the team. We identified, recruited and trained people. It has been a great opportunity for me to be in the company from the first year of operations and working under a legend like Mr. Jagannathan," Prakash added.

Jagannathan, founder of the company, tendered his resignation from the board from June 10.

Headquartered in Chennai, the company began its operations in 2006 as India's first standalone health insurance provider. In the standalone health insurance segment, the company is currently the market leader.

Rupee declines 8 paise

THE RUPEE DECLINED by 8 paise to close at 82.04 against the US dollar on Monday amid geopolitical concerns and firming crude oil prices. Volatility in equity markets and FII outflows also weighed on the market sentiment, analysts said. Analysts said that geopolitical concerns after a short-lived armed rebellion in Russia eroded the appeal of riskier assets. The dollar index, which gauges the greenback's strength against a basket of six currencies, eased 0.15% to 102.75.

financialexp.epap.in

Date : June 26, 2023

Place: New Delhi

Mikasa

PADMANABH MAFATLAL Place: Mumbai GROUP

https://ris.kfintech.com/ clientservices/tds/

Niraj B. Mankad President Legal &

For Navin Fluorine International Limited

Dated at Chennai this 26th day of June 2023

Registered Office: No.12, Poonthamallee Road, Ekkatuthangal, Chennai 600 032.

New Delhi

expenses of management norms: MD "proactive" move from the regulator as it aims to provide more flexibility to insurers in paying commissions to their agents and intermediaries under the overall cap on EoM. Putting an overall cap at the

company level, Irdai has replaced earlier ceilings on payments of commissions in different lines of business. According to Rau, as Future Generali India is currently compliant with the revised EoM norm, the company has the choice to reward certain channel partners for better customer franchise that they have built in case it wants. "That option is ours. So, we can do that across products, across geographies, and across categories of distributors."

FORM NO. CAA. 2

CAVINKARE PRIVATE LIMITED, CIN: U24246TN1990PTC046613

CK'S FOODS PRIVATE LIMITED, CIN:U01403TN1990PTC086985 NO.12, POONTHAMALLEE ROAD, EKKATUTHANGAL, CHENNAI - 600032

In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that a meeting of Unsecured

The unsecured Creditors of the Applicant Company as on the cut off date viz., 30th November 2022 shall

The Applicant Company has, on 26-0-2023 completed the dispatch of the notice of the meeting of the

scrutinize the votes cast through voting process at the venue in a fair and transparent manner. The scrutinizer shall unblock the votes in the presence of the two witnesses not in the employment of the company and make the scrutinizer's report of the votes cast in favour and against the resolution and The results of the voting shall be announced by the Chairman of the meeting on 28th day of July2023,

> Name of the Director : M. D.SUDHARSAN. Designation: Director - Corporate Affairs

Mikasa Date: June 26, 2023 Company Secretary Creating value Shatter value

details with their respective DPs;

mentioned above.

Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Ms. Shweta Dass JMIC Peshi: 28-07-2023 CNR: PBLD03-008057-2020 COMA/2013/2020 publication notice for proclamation under section 82 CR.PC Complaint R/w sec-138 of N.I ACT Kotak Mahindra Bank

Ramavtar Notice To: Ramavtar S/o Deva Lal. Auth Sign Of M/s Dev Roadlines, Ghas Tonk, Jaipur- 304001 (Rajasthan) Whereas it has been proved to the

satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 28-07-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court this for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n

otice&district=ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana The Court Of Ms. Shweta Dass JMIC Ludhiana COMA/2028/2020

publication notice for proclamation under section 82 CR.PC Complaint R/w sec-138 of N.I ACT Kotak Mahindra Bank Vimal Kumar Bhaskar Notice To: Vimal Kumar Bhaskar R/o Aa-1civil Township, Rourkela- 769004 (Orissa) Vinay Bhaskar C/o Dinanath Bhaskar R/o Qr No 0 14, Civil Township, Near Rongta Guest House, Rourkela 769004 (Orissa) Whereas it has been proved to the

satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 28-07-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court this for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n otice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

Jalandhar Feed Mills Private Limited

Rajit Poultry Feed Industries CNR NO: PBJL02-015096-2020

Next Date: 29-07-2023 NACT/3308/2020 Publication Issued To: Rajit Poultry Feed Industries Village Phulkaha Block Gamhariya, Distt Madhepura, Bihar 852114 Through Its Proprietor Mohammad Zakir In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 29-07-2023 at 10:00 a.m. for fetails logon to: https://highcourtchd.gov. n/?trs=district notice&district=Jalandhar JMIC 18, Jalandhar

क्रमांकः F.9(00001)/RMSEFC/2022/1162

COURT NOTICE

In The Court Of Dr. Mandeep Mittal Additional Principal Judge Family Court, Ludhiana Rajiv Masih

Rajni Bhatti CNR NO: PBLD01-008694-2021 Next Date: 29-07-2023 Publication Issued To: Rajni Bhatti Father: Lal Chand

Village And P.o Khathgarh, Tehsil And Distt, Nawashehar In above titled case, the defendant(s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/ respondent(s) should appear in person or through counsel on 29-07-2023 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=dist

rict notice&district=Ludhiana Addl. Principal Judge Family Court Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana n The Court Of Ms. Shweta Dass JMIC Ludhiana Peshi: 28-07-2023

CNR: PBLD03-008059-2020 COMA/2012/2020 publication notice for proclamation under section 82 CR PC Complaint R/w sec-138 of N.I ACT Kotak Mahindra Bank

Hira Lal Suthar Notice To: Hira Lal Suthar S/o Tulsi Ram Suthar R/o C-63, Ward No. 12 Azad Nagar, Bhilwara- 311001 Rajasthan)

accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 28-07the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court this for details logon to:

लि. (आईआईएफएलएचएफएल) के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली. 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी के प्राधिकत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना जारी कर यहाँ नीचे वर्णित ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों को उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीत सचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय यहाँ नीचे वर्णित राशि के साथ उस पर ब्याज के लिये आईआईएफएल एचएफएल के चार्ज के अधीन होगा। 'ऋणधारक का ध्यान अधिनयम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है कि यदि ऋणधारक बिक्री अथवा अंतरण के लिये निर्धारित तिथि से पर्व किसी भी समय वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज एंव खर्चे के साथ ''आईआईएफएल एचएफएल'' के बकाये का भुगतान कर देते हैं तो ''आईआईएफएल एचएफएल'' द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा अंतरण नहीं की जाएगी तथा प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के अंतरण अथवा बिक्री के लिये ''आईआईएफएल एचएफएल'' द्वारा कोई कदम नहीं उठाई जाएगी।

भी से डिस्टा लैबोरेटरीज एरिया माप 900 वर्ग फीट, शान्ति नगर, शिहानी, गाजियाबाद, (रु. दो लाख अड़तालिस हजार सड़सठ प्रयं भाप 900 वर्ग फीट, शान्ति नगर, शिहानी, गाजियाबाद, (रु. दो लाख अड़तालिस हजार सड़सठ प्रयं 940879 प्रं 940879 प्रं 940879 प्रं भम्पित का सभी भाग तथा हिस्साः प्लॉट नं. 2 का भाग, खसरा रु. 11,08,059/- (रु. ग्यारह लाख 15 फर. 23 प्रामिती शायरा बानो खान वंग फीट, भूमि एरिया माप 900 वर्ग फीट, कार्पेट एरिया माप 332 आठ हजार उन्सठ मात्र) 2023 जून, वर्ग फीट, निर्मित एरिया माप 755 वर्ग फीट बांके शारदा विहार कालोनी, फेज 3, ब्लॉक बी, लोहामंडी वार्ड, आगरा 282007, उत्तर प्रदेश, भारत	ऋणधारकों ⁄सह-ऋणधारकों का नाम श्री रवि कान्त पाठक, श्रीमती अंजली पाठक,	प्रतिभृत परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति का विवरण) सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः खसरा नं. 51/1, निर्मित एरिया माप 1885 वर्ग फीट, कार्पेट एरिया माप 1697 वर्ग फीट, भृमि	कुल बकाया देवता (रु.) 847777, रु. 2294378/- (रु. बाइस लाख चौड़ानवे हजार तीन सौ अठहत्तर	माँग सूचना तिथि	कब्जा सूचना तिथि
श्रीमती शायरा बानो खान नं. 510, भूमि एरिया माप 900 वर्ग फीट, कार्पेट एरिया माप 332 आठ हजार उन्सठ मात्र) 2023 जून, बाग एंड पैकर्स वर्ग फीट, निर्मित एरिया माप 390 वर्ग फीट, सुपर निर्मित एरिया (प्रॉस्पेक्ट नं . माप 755 वर्ग फीट बांके शारदा विहार कालोनी, फेज 3, ब्लॉक-	मै. डेल्टा लैबोरेटरीज प्रॉस्पेक्ट नं . 8 47777	एरिया माप 900 वर्ग फीट, शान्ति नगर, शिहानी, गाजियाबाद,		अप्रैल	जून,
	श्रीमती शायरा बानो खान बाग एंड पैकर्स (प्रॉस्पेक्ट नं.	नं. 510, भूमि एरिया माप 900 वर्ग फीट, कार्पेट एरिया माप 332 वर्ग फीट, निर्मित एरिया माप 390 वर्ग फीट, सुपर निर्मित एरिया माप 755 वर्ग फीट बांके शारदा विहार कालोनी, फेज 3, ब्लॉक-			जून,

तल, पदम बिजनेस पार्क, प्लॉट नं. आईएनएस-1, सेक्टर 12ए, आवास विकास सिकन्द्रा योजना, आगरा-282007 में प्राधिकृत अधिकारी अथवा **कॉर्पोरेट कार्यालय**: प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गाँव, हरियाणा में सम्पर्क करें। थानः दिल्ली/आगरा तिथिः २७.६.२०२३ हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनांस लि. के लिये

अचल सम्पत्तियों का विवरण

प्लॉट नंबर डी-82 का हिस्सा, 100 वर्ग गज का, खसरा

नंबर-355, गली नंबर-2, संत नगर हदबस्त ग्राम सादुलहबाद,

परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद-201102,

उत्तर प्रदेश। चौहदीः पूर्वः भूखंड का शेष भाग, पश्चिमः अन्य

प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ब्याज इत्यादि संपत्ति, उत्तर: 20 फीट चौडी सडक, दक्षिण: गली 8 फीट चौडी

418, 4थी मंजिल, पर्ल ओमेक्स टॉवर - 2, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली 110034

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

जबकि अधोहरताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भृति अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन हिंदजा हाउसिंग फाईनेंस

लिमिटेड, का प्राधिकत अधिकारी होने तथा प्रतिभित हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त

शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने का कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि

अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीर्च वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के

साथ कोई भी लेन देन हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर

ক 15,87,806/-

दिनांक

2021 तक +

मांग सूचना की राशि बकाया राशि

दक्षिण रलव

ई-निविदा सूचना सं. DYCE-GC-ll-TPJ-01-2023 तथा ई-निविदा सूचना सं. DYCE-GC-ll-TPJ-02-2023. ई-निविदा सूचना सं. DYCE-GC-l-TPJ-03-2023.

भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से, उपमुख्य अभियंता, गेज परिवर्तन-I तथा II, दक्षिण रेलवे, तिरुचिरापल्ली निविदा आमंत्रण सुचना (एनआईटी) ई-निविदा पोर्टल www.ireps.gov.in के अनुसार निम्निलखित कार्यों के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है। निविदा के लिए आवेदन करने के इच्छुक निविदाकारों/ठेकेदारों को पोर्टल www.ireps.gov.in में नामांकित होना आवश्यक है और केवल ऑनलाइन निविदाएं ही स्वीकार की जाएंगी। ई-निविदा प्रपत्र सभी निविदाकारों के लिए निःशुल्क जारी किया जायेगा।

निविदा सं. DYCE-GC-II-TPJ-01-2023

. पेरलम और कराईकल खंड के बीच गेज परिवर्तन कार्यः 60 किलोग्राम (90 युटीएस) – आर260, 60 किलोग्राम (90 युटीएस) 60 किलोग्राम आर260/90 यूटीएस, 52 किलोग्राम (90 यूटीएस) के लिए वेल्डिंग पोर्शन और 60 / 52 किलोग्राम (90 यूटीएस) रेल ज्वाइंट के लिए कंबिनेशन वेल्डिंग भागों की आपूर्ति, पेरलम और कराईकल स्टेशनों के बीच सिंगल शॉट क्रूसिबल एसकेवी प्रक्रिया के साथ एल्युमिनो थर्मिट वेल्डिंग तकनीक द्वारा रेल की वेल्डिंग। (आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित फर्मों को ही आवेदन

निविदा सं. DYCE-GC-II-TP,J-02-2023

2. चेन्नई बीच और चेन्नई एग्मोर के बीच प्रस्तावित चौथी लाइन के लिए प्रस्तावित मोबाइल फ्लैश बटवेल्डिंग, नागप्पट्रिनम और तिरुथुराईपुंडी, कराईक्कल और पेरलम, चिन्ना सलेम और कल्लाकृरिची स्टैम्बरमयार्ड स्टेज-II के बीच प्रस्तावित नई लाइन

क्र. सं.	विज्ञापित मूल्य (रु. में)	ईएमडी की लागत (रु. में)	समापन अवधि माह में	बन्द होने⁄खुलने की तिथि को 15.00 बजे
1.	82,54,743.30	1.65,100.00	छः (६) माह	12.07.2023
2.	3,74,59,038.20	3,37,300.00	चौबीस (24) माह	12.07.2023
-		<u>।</u> कार्य	का नाम	

निविदा सं. DYCE-GC-I-TP,I-03-2023

1. दो साल की अवधि के लिए उप मुख्य अभियंता, गेज परिवर्तन-1 तिरुचिराप्पल्ली क्षेत्राधिकार के नियंत्रण में तिरुचिराप्पल्ली में कार्यालयों/शिविर कार्यालय/ओआरएच के रखरखाव सहित मरम्मत और नवीनीकरण।

郊. सं.	विज्ञापित मूल्य (रु. में)	इएमडी की लागत (रु. में)	समापन अवधि माह में	बन्द होने⁄खुलने की तिथि को 15.00 बजे		
	31,42,895.11	62,900.00	चौबीस (24) माह	17.07.2023		
वेवरण के लिए वेबसाइट पोर्टल www.ireps.gov.in देखें या सम्पर्क करें : उप मुख्य अभियंता, गेज परिवर्तन-I एवं II, दक्षिण						
लवे, एसबीआई रोड, त्रिची-620 001.						

Follow us on : twitter.com/GMSRailways

वसूली अधिकारी,

ऋण वस्ली अधिकरण, मुम्बई-1 के समक्ष भारत सरकार, वित्त मंत्रालय

2 रा तल, कोलाबा टेलीफोन भवन, कोलाबा मार्केट, मुम्बई-400005

अगली तिथि: 04.08.2023

अचल सम्पत्ति के एटैचमेन्ट का वारंट

वसुली कार्यवाही सं. 2015 का 16

मूल आवदेन सं. 2001 के 677 में

स्ट्रिस्ड एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड

उषा इस्पात लिमिटेड एवं अन्य –प्रतिवादीगण जैसा कि आप, उषा इस्पात लिमिटेड एवं अन्य माननीय पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार की गई मूल आवेदन सं. 2001 के 677 में वसूली प्रमाणपत्र सं. 2015 के 16 के संदर्भ में उस पर ब्याज के साथ रु. 584,86,14,509.50 (रु. पाँच सौ चौड़ासी करोड़ छियासी लाख चौदह हजार पाँच सौ नौ एवं पैसे पचार

मात्र) की राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। एतदुद्वारा अग्रिम आदेशों तक आपको किसी भी रुप में नीचे वर्णित सम्पत्तियों के अधिग्रहण को अंतरिर करने, तृतीय पार्टी हित का निर्माण करने, स्वत्व त्याग करने, चार्जिंग अथवा व्यवसाय करने से निषिद्ध तथा

वंचित किया जाता है तथा यह कि सभी व्यक्तियों को ऐसे अंतरण, एलाइनेशन, कब्जा अथवा चार्ज के अंतर्गत कोई भी लाभ प्राप्त करने से निषिद्ध किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों की अनुसूची

क) उस पर विद्यमान सभी संरचना के साथ औरंगजेब लेन, नई दिल्ली में स्थित प्लॉट नं. 12, माप लगभग 6500 वर्ग यार्डसः

खि) प्लॉट नं. 63, ब्लॉक-II , माप लगभग 2200 वर्ग यार्ड्स, दि मोहन को-ऑपेरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, पुल पहलादपुर, ताजपुर, बदरपुर, नई दिल्ली

ग) प्लॉट नं. 58, ब्लॉक-II , माप लगभग 2200 वर्ग यार्ड्स, दि मोहन को-ऑपेरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, पुल पहलादपुर, ताजपुर, बदरपुर, नई दिल्ली

(आशु कुमार) वसूली अधिकारी

ऋण वसूली अधिकरण-1,

–आवेदकगण

2) **अनिल कलवंत राय**. प्रतिवादी सं. 3

प्लॉट नं. 12, औरंगजेब लेन, नई दिल्ली-110001

1) विनय कुलवंत राय, प्रतिवादी नं. 2

प्लॉट नं. 58, तथा 63, ब्लॉक बी-II, दि मोहन को-आपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, पुल पहलादपुर, ताजपुर बदरपुर, नई दिल्ली-110044

दक्षिण रेलवे

पलकड मंडल

ई-निविदा सूचना सं. पीजीटी/ओटी/20/2023 दिनांक 23.06.2023 भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता / समन्वय/दक्षिणी

क्रं	कार्यों का नाम	अनुमानित नकद मूख्य (लाख में)	बोली सुरक्षा चरित्र (रु.)	निविदा समापन की तारीख 15.00 बजे	समापन अवधि माह में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दिनांक 01.07.2023 से 30.06.2024 तक एक वर्ष की अवधि के लिए पलकड़ डिवीजन में कार्बों के निष्पादन और सामग्रियों की आपूर्ति के लिए जोगल अनुबंध जोग "ईंग" — वरिष्ठ अनुभाग अभियंता / ढिज / कन्नूर (फेरोक- मैंगलोर और मैंगलोर — पनांबूर खंड)	80.00	1,60,000/-	14.07.2023	बारह
2	वैक्यूम श्रीवाटरिंग कंक्रीट के साथ मेंगलोर (पीएफ 1, पीएफ 2/3 और वे लाइन) और पय्यानूर (पीएफ 1 और पीएफ 2/3) के प्लेटफॉर्म का पुनर्निर्माण।	86.98	1,74,000/-	24.07.2023	छह
3	पतकड़ मडल-पतकड़ मडल3 डेन/वेश्ट/पीजीटी: टीटीआर (एफएस+टीडब्ल्यूएस+ डब्ल्यूसीएमएससी)- 193 सेट (12-167 सेंट में 1, 8.5-23 सेंट में 1 और 16-3 सेंट में 1	999.36	6,49,700/-	02.08.2023	चौबीस
4.	मलक्रक गंकल शंकल इंजीनियर / पूर्व / पलक्रक टीटीआर (एफएस + टीटब्ल्यूएस + डब्ल्यूलीएम एससी) -56 सेंट (12-49 सेट में 1, 85-4 4 सेट में 1 और 16-3 सेट में 1) और 20 सेट पॉइट और क्रोसिंग (स्लीवर और क्रोसिंग स्लीपर स्विच करें) पर टीएसक्रर।	344.63	3,22,300/-	02.08.2023	बारह
5	गंडल अभियंता/पूर्व/पतकड़ खंड एसडब्द्यू, 1 शोरानूर जंवशन— कोजीकोड, टीआरआर (पी) 1.065 किमी (स्थान अनुसन्तक के रूप में संतन्त) एसडब्द्यू 2 पोवनूर जंवशन—शोरानूर जंवशन, टीआरआर (पी) 34. 173 किमी (स्थान अनुतनक के रूप में संतन्त) एसडब्द्यू 3 शोरानूर जं— कोजिकोड; सीटीआर (पी) एसडब्द्यू 3 शोरानूर जं— कोजिकोड; सीटीआर (पी) एसडब्द्यू 3 शोरानूर जंन स्थान) एसडब्द्यू 4. पोदगुर जंवशन—शोरानूर जंवशन सीटीआर (पी) एसव्यू आरएस हारा 5.839 किमी (स्थान अनुतनक के रूप में संतन्त)	382.41	3,41,200/-	02.08.2023	बारह
6	गंडल अभियता/पूर्व/पतकड् खंड एसडल्यू, 1 शोरानूर जंवशन- कोजीकांड टीआरआर (पी) 1,065 किमी (स्थान अनुसन्तक के रूप में संस्था) एसडब्ल्यू 2 पोदानूर जंवशन-शोरानूर जंवशन, टीआरआर (पी) 34, 173 किमी (स्थान अनुस्तानक के रूप में संस्था) एसडब्स्यू,3 शोरानूर जं- कोजिकांड; मीटीआर (पी) एसव्युआरएस हार्च 1,221 किमी (अनुसानक के रूप में संस्थान स्थान) एसडब्स्यू,4 पोदानूर जंवशन-शोरानूर जंवशान मीटीआर (पी) एसक्युआरएस हार्च 5,850	199.19	2,49,600/-	02.08.2023	छह

किमी (ख्यान अनुलग्नक के रूप में संलग्न) . कार्यौं / वस्तुओं / सेवाओं पर सभीअनुबंध समय—समय पर लागू नए जीएसटी अधिनियम के अधीन होंगे। 2. ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं को जीएसटी अधिकारियों के साथ खुँद को पंजीकृत करना होगा और 01.7.2017 से बिलों को संसाधित करने के लिए जीएसटी पंजीकरण संख्या प्रस्तुत करनी होगी।

3. उपरोक्त निविदाओं की पूरी जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट "http://www.ireps.gov.in". पर जाएं। नोटः वेबसाइट पर बाद में अपलोड किए गए किसी भी सुधार या संशोधन के लिए जारी किए गए किसी भी शुद्धिपत्र की जांच करना निविदाकर्ता की जिम्मेदारी है; निविदा प्रस्तुत करते समय इसे ध्यान में रखा जाएगा।

Follow us on : wtwitter.com/GMSRailways

राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद जोधपुर सम्भाग औद्योगिक सम्पदा, न्यू पॉवर हाऊस रोड, जोधपुर फोन : 0291-2431937 ईमेल : gmdicjodhpur@gmail.com

राजस्थान-सरकार

Katyayani Trading Company A-116, back side basement, wazirpur industrial area, delhi 110052

अन्तिम नोटिस

प्रकरण संख्या - RJ/22/M/JDH/00001 मैसर्स sohanlal kawar salawas steels Flat No - 30, Building- shastri nagar, Road/Street- opposite Jain sthanak, Village/Town-JODHPUR, Black- A sector, City - JODHPUR द्वारा आपूर्ति किये गये Stainless steels circle की विलम्बित भूगतान राशि रूपये 2,87,035 / – एवं ब्याज राशि का भूगतान आप द्वारा आपूर्तिकर्ता को नहीं किये जाने के कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा सुविधा परिषद में विलम्बित भुगतान बाबत आपके विरूद्ध बाद दायर किया गया है। अतः सुविधा परिषद द्वारा आपको दिनांक 02.02.2022 को पत्र जारी किया जाकर वाद के सम्बन्ध

में आपकी टिप्पणी चाही गई थी। बैठक दिनांक 29.03.2022, 28.07.2022, 20.09.2022, 24.11.2022, 23.12.2022 एवं 27.02.2023 में आपको मीटिंग नोटिस दिनांक 21.03.2022, 15.07.2022, 15.09.2022, 02.11.2022, 12.12.2022 एवं 06.02.2023 डाक से प्रेषित किया जाकर वाद के सम्बन्ध में सुविधा परिषद जोधपुर सम्भाग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु लिखा गया है। उक्त बैठक में आपकी ओर से कोई भी व्यक्ति सुविधा परिषद जोधपुर सम्भाग के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही इस सम्बंध में आपसे अभी तक किसी प्रकार का प्रत्युतर प्राप्त हुआ है।

अतः जरिये अंतिम नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपूर्तिकर्ता को विलम्बित बकाया भुगतान न किये जाने के संबंध में अपना प्रत्युत्तर अविलम्ब प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके असहयोग को दृष्टिगत रखते हुए conciliation process निरस्त किया जाकर राजस्थान सुक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद जोधपुर सम्भाग नियम- 2007 के प्रावधान के अनुसार विलम्बित भुगतान पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार अवार्ड पारित कर दिया जावेगा। भवदीया

(पूनम राठौड) सहायक निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी

मांग सूचना ईंडेलवीज एसेट रीकंस्टक्शन कम्पनी लिमिटेड सीआईएन: U67100MH2007PLC174759 रिटेल केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालयः ईडेलवीज हाउस ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई 400098

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत।

अधोहस्ताक्षरी प्रतिभति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभतिकरण तथा पनर्निर्माण के तहत इंडेलवीज एसेट रीकंस्टक्शन कम्पनी लिमिटेड (''ईएआरसी'') का अधिकत प्राधिकारी है। प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम. 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधिकृत प्राधिकारी ने निम्नलिखित कर्जदार(रों) को उनके लिए निर्गत जो नीचे भी दिया गया है, सम्बद्ध माँग सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सुचना निर्गत की है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में, एतद्वारा एक बार पुनः कर्जदारों को कथित माँग सूचना में नीचे लिखित तिथियों से भुगतान की तिथि तथा/अथवा कथित कर्जदार(रों) द्वारा क्रियान्वित अन्य दस्तावेजों/प्रलेखनों, यदि कोई हो, के साथ पठित कर्ज के अनुबन्ध के तहत वसूलीकृत, देय तिथि तक भावी ब्याज सहित यहाँ नीचे उल्लिखित राशि को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर ईएआरसी को अदा करने के लिए कहा जाता है। कर्ज के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभृति के रूप में क्रमशः कथित कर्जदार(रों) द्वारा ईएआरसी के पास निम्नलिखित आस्ति गिरवी रखी गयी है।

क्र.	कर्जदार(रों)∕सह−कर्जदार(रों) का	माँग सूचना की तिथि	ट्रस्ट तथा एसाइनर
सं.	नाम∕ऋण खाता संख्या	तथा राशि	का विवरण
1.	आशा फूड (ऋणधारक), 2. अंजू गुप्ता (सह- ऋणधारक), 3. राजीव गुप्ता (सह-ऋणधारक एवं मार्टगैजर) 4. रवि गुप्ता (सह-ऋणधारक एवं मार्टगैजर 5. विद्या गुप्ता (सह-ऋणधारक एवं मार्टगैजर) 9001120100508282	सूचना तिथि मई 05/30/2023 में 30.5.2023 को रु. 89,79,687.54/- (रु. नवासी लाख उन्यासी हजार छः सौ सत्तासी पैसे चौवन मात्र)	ईएआरसी ट्रस्ट एससी-379 एवं एयू स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड

सम्पत्ति का विवरण: खसरा नं. 1257, कृष्णा नगर, ग्राम सादिक नगर, तहसील एवं जिला गाजियाबाद में शामिल सम्पत्ति/प्लॉट, मकान सं. 997, एरिया माप 255 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहद्दी:** उत्तरः डा. राज कुमार शर्मा का प्लॉट, दक्षिणः जगदीश का प्लॉट, पूर्वः बालीराम शर्मा का प्लॉट, पश्चिमः 12 फीट रोड

9	/ 6	23	
2.	 प्रिंस चौधरी (ऋणधारक), 2. यग पाल सिंह (सह-ऋणधारक), 3. सेजल पॅवार (सह-ऋणधारक), 4. राजेश रानी (सह-ऋणधारक), 5. मै. वाईपीएस डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (सह-ऋणधारक), 6. मै. प्रिंस सॉफ्टवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड (सह-ऋणधारक एवं मार्टगैजर) 1284880 	सूचना तिथि मई 06/07/2023 में 06.06.2023 को रु. 77,62,144.58/- (रु. सतहत्तर लाख बासठ हजार एक सौ चौआलिस पैसे अन्ठावन मात्र)	ईएआरसी ट्रस्ट एससी-410 एवं मै. एचडीबी फाइनांसियल सर्विस लिमिटेड

सम्पत्ति का विवरण: ''ब्लॉक-पी, सेक्टर-23, संजय नगर, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित आवासीय मकान सं. पी−1, भूतल (छत के अधिकार के बिना), कुल एरिया माप 87.78 वर्ग मी., कवर्ड एरिया 72.82 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हिस्सा'' जो मै. प्रिंस सॉफ्टवेयर प्राईवेट लि. के स्वामित्व में है। **चौहदी**: पूर्वः सर्क्युलेशन स्पेस, पश्चिमः सर्क्युलेशन स्पेस, उत्तरः 12 मी. खुला रोड, दक्षिणः मकान सं. पी-2

यदि कर्जदार उपर्युक्त के अनुसार ईएआरसी को भुगतान करने में असफल रहते हैं तो ईएआरसी लागतों तथा परिणामों के प्रति कथित कर्जदार(रों) के सम्पूर्ण जोखिम पर अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। कर्जदारों को उपर्युक्त आस्तियों को विक्रय, पट्टे अथवा अन्य किसी माध्यम से ईएआरसी की पूर्व लिखित अनुमित के बिना हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके तहत निर्मित नियमों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन में सहयोग करता है वह अधिनियम के तहत प्रावधानित के अनुसार जेल जाने तथा/ अथवा जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

तिथि: 27.6.2023 ह./- अधिकृत प्राधिकारी कृते ईडेलवीज एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड स्थानः दिल्ली

Edelweiss

शीला फोम लिमिटेड

(सीआईएनः L74899DL1971PLC005679) पंजीकृत कार्यालय : 604, आशादीप, 9 हेली रोड नई दिल्ली-110001 ई-मेल: investorrelation@sheelafoam.com फोनः +91 11 2202 6875 वेबसाइट: www.sheelafoam.com

वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विडियो माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 51वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सामान्य परिपन्न सं. 14 / 2020, 17 / 2020, 20/2020, 02/2021, 2/2022, 10/2022 एवं अन्य लागू नियमों और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में बैठक की सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए शीला फोम लिमिटेड के सदस्यों की 51वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 18 जुलाई, 2023 को प्रातः 10.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरीज प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। डिमेटिरियलाइज प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता और मोबाइल नम्बर अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत कराएं। फिजिकल प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता एवं मोबाइल नम्बर कम्पनी के रजिस्ट्रार अर्थात् लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोवल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. एनएच-2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, नजदीक सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, टेलीफोन: 011-41410592,93,011-49411000; फैक्सः 011-41410591; ई-मेलः delhi@linkntime.co.in; वेबसाइटः www.linkintime.co.in, के पास पंजीकृत कराएं। सदस्यगण कृपया नोट करें कि वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.sheelafoam.com और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध

शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज पर रिमोटली अपना वोट देने का अवसर होगा। डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप, फिजिकल प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों और शेयरधारक जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, के लिए रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया शेयरधारकों के लिए सूचना में उपलब्ध कराई जाएगी। विस्तृत ब्यौरा कम्पनी की वेबसाइट पर सूचना में भी उपलब्ध होगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वेबसाइट www.sheelafoam.com देखें। कृते शीला फोम लिमिटेड

दिनांकः 26 जून, 2023 स्थान : नोएडा

हस्ता / -(मो. इकबाल अहमद) कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

कब्जा सूचना की तिथि

26-06-2023

सांकेतिक

17-08-2021

के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है।

ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

स्थानः दिल्ली

आकर्षित किया जाता है।

देनांक: 26.06.2023

सं.

कर्जदार/गारन्टर के नाम

आवेदन नं.

DL/DEL/DLHI/A000000173

श्री दीपक कुमार और श्रीमती

हरवती देवी. दोनों: मकान

नंबर-206, संत नगर, डीएलएफ

लोनी उत्तर प्रदेश-201102

(रुपये चालीस हजार मात्र)

भिम एवं समस्त अन्य आकस्मिक लागतों, प्रभारों का भगतान वहन करना होगा।

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ ई—नीलामी की सार्वजनिक सूचना में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल–एचएफएल) निगमित कार्यालयः भूखंड सं. 98, उद्योग विहार, फेज–4, गुड़गांव, हरियाणा–122015 (हरियाणा) त शाखा कार्यालय : ''एफएन—01, प्रथम तल, स्टार प्लाजा, बच्चा पार्क के पास, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ — 250001'' 🦯 ''कार्यालय सं. 1, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, भूखंड सं. सी—1, सेक्टर— वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010'' / ''भूखंड सं. 30/30ई, ऊपरी भू तल, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ मार्ग, जगुआर शोरूम के समीप, मोती नगर, नई दिल्ली'' के पास बंधककृ अचल सम्पत्ति का विक्रय। जबकि आईआईएफएल–एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी (''एओ'') ने, आईआईएफएल–एचएफएल की देयराषियों की वसूली हेतु, निम्नलिखित सम्पत्ति / यों का ''जैर हैं जहां हैं आधार एवं जैसी हैं जो हैं आधार'' पर विक्रय करने के एकाधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों / प्रोस्पेक्ट नंबरों के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सुचना व

ह जहां हे आधार एवं जसा है जो है जोबार पर विक्रय करने के एकाधिकार के साथ निन्नालाखत ऋण खाता प्रस्पित के तहत आधानयन की धारी 13(2) के अंतर्गत निर्मा के अनुपालन में उनका अधिग्रहण कर लिया था। विक्रय जो है, वह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइटः www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई—नीलामी मंच के माध्यम से किया जाएगा।						
ऋणकर्ता(ओ) / सह—	मांग सूचना तिथि	अचल संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण	भौतिक अधिग्रहण की तिथि	आरक्षित मूल्य		
ऋणकर्ता (ओं) / गारंटर(रों) के नाम	एवं राशि		00 777 0000	₹. 26,77,000 / −		
क नाम 1. श्री जीतेंद्र	19—अन.—2022 एवं	संपत्ति फ्लैट नं. टी 1 के समस्त वह भाग तथा अंश	09—जून—2023	(रुपये छब्बीस लाख सतहत्तर		
1. श्री जातप्र 2. श्रीमती पूजा	₹. 29,68,903/-	जिसका अधिमापन अधि निर्मित क्षेत्रफल 1200 वर्ग	तिथि ०१—जून—२०२३ के	हजार मात्र)		
3. जीतेंद्र इलेक्ट्रॉनिक	(रुपये उनतीस लाख अड़सठ हजार	फुट, कॉर्पेट क्षेत्रफल 782 वर्ग फुट, निर्मित क्षेत्रफल	अनुसार कुल बकाया	धरोहर राषि जमा (धराज)		
वर्क्स	नौ सौ तीन मात्र)	900 वर्ग फुट है, जो तृतीय तल, भूखंड सं. सी 4/5, सेक्टर–4, योजना संख्या 6, शास्त्री नगर,	रु. 29,66,382/- (रुपये	रु. 2,67,700 ∕ −		
(प्रोस्पेक्ट नं.	बोली वृद्धि राषि	4/5, सक्टर–4, योजनी संख्या 6, शास्त्रा नगर, जागृति विहार, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत 250001 में	उनतीस लाख छियासट	(रुपये दो लाख सतसठ हजार		
IL10191917)	₹. 40,000 / -	रिथत है।	हजार तीन सौ बयासी मात्र)	सात सौ मात्र)		
	(रुपये चालीस हजार मात्र)	rou e j				
1. श्री विवेक कुमार	26—नवं.—2022 एवं	संपत्ति फ्लैट नं. सी—3283 के समस्त वह भाग तथा	10—जून—2023	रु. 5,66,000 / — (रुपये पांच		
2. श्रीमती पूनम कुमारी	रु. 8,89,184/- (रुपये आठ लाख	अंश जिसका क्षेत्राधिमापन 353 वर्ग फुट कॉर्पेट	तिथि 01—जून—2023 के	लाख छियासठ हजार मात्र)		
कुमारी	नवासी हजार एक सौ चौरासी मात्र)	क्षेत्रफल 505 वर्ग फुट अधि निर्मित, टाईप—सी,	अनुसार कुल बकाया	(Table 118)		
(प्रोस्पेक्ट नं. L10002647)	बोली वृद्धि राशि	तृतीस तल, टॉवर—39, दिनेश नगर, पिलखुवा,	रु. 9,49,373 /- (रुपये नौ	धरोहर राषि जमा (धराज)		
L10002047)	रु. 20,000 ∕ −	गाजियाबाद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, भारत।	लाख उनचास हजार तीन	रु. 56,600 / — (रुपये छप्पन		
	(रुपये बीस हजार मात्र)		सौ तिहत्तर मात्र)	हजार छह सौ मात्र)		
1. श्री जीतेंद्र शर्मा	17—नवं.—2022 एवं	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो	21—जून—2023	रु. 32,90,000 / — (रुपये		
2. श्रीमती गीता शर्मा	₹. 30,61,165/-	स्वामित्वधारक, निर्मित, संपूर्ण संपत्ति सं.	तिथि ०१—जून—२०२३ के	बत्तीस लाख नब्बे हजार मात्र)		
(प्रोस्पेक्ट नं. 907892 एवं	(रुपये तीस लाख इकसठ हजार एक सौ पैंसठ मात्र)	डब्ल्यूजेड—95 खस. नं.—698 के रूप में, भूमि	अनुसार कुल बकाया			
927236 एवं 932830 एवं	बोली वृद्धि राशि	क्षेत्राधिमापन 450 वर्ग फुट तथा अधि निर्मित	रु. 29,07,295 /- (रुपये	धरोहर राषि जमा (धराज)		
943647)	षाला पृद्धि सारा रु. 40,000/—	क्षेत्राधिमापन 1182 वर्ग फुट, बसई दारापुर, दिल्ली,	उनतीस लाख सात हजार	रु. ३,२९,००० / – (रुपये तीन		
	(रुपये चालीस हजार मात्र)	110015, दिल्ली, भारत में स्थित है।	दो सौ पिचानबे मात्र)	लाख उनतीस हजार मात्र)		
1. श्री नीरज कुमार	12—दिसं.—2019 एवं	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो भू तल,	13—जून—2023	₹. 45,92,000 / -		
डोगरा, 2. श्रीमती पायल	₹. 50,31,130/-	डब्ल्यूएफ—162, वाटर साइड फ्लोर्स, लग्जरी लेक	तिथि 01-जून-2023 के	(रुपये पैंतालिस लाख बयानबे		
कुम्हे, ३. एज एक्सेस	(रुपये पचास लाख इकतीस हजार	सिटी, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा 131001 में	अनुसार कुल बकाया	हजार मात्र)		
टेक्नोलोजीज एंड सर्विसेज	एक सौ तीस मात्र)	स्थित है।	रु. 49,50,756/- (रुपये	धरोहर राशि जमा (धराज)		
प्रा. लि.	बोली वृद्धि राशि	(निर्मित क्षेत्राधिमापन 1400 वर्ग फुट)	उनचास लाख पचास हजार	₹. 4,59,200 / −		
(प्रोस्पेक्ट नं. 740898)	रु. 40,000 / — (रुपये चालीस हजार मात्र)		सात सौ छप्पन मात्र)	(रुपये चार लाख उनसठ हजार दो सौ मात्र)		
		मंगीत के समझ बन अग्रम जाग ओंग जे	13—मई—2023	₹. 61,12,000 / -		
 श्री सिद्धार्थ आहूजा, श्रीमती गीता 	19—अग.—2022 एवं रु. 63,80,140/-	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो डब्ल्यूएफ–86 डुपलेक्स के रूप में, अधिमापन 1850	· ·	(रुपये इकसट लाख बारह		
ट. त्रानता पाता हरीश चंद्र आहूजा,	(रुपये तिरेसठ लाख अस्सी हजार	वर्ग फुट, चतुर्थ तल, ''वाटर साइड फ्लोर्स लग्जरी	तिथि 01—जून—2023 के	हजार मात्र)		
3. स्वास्तिक ट्रेडर्स	एक सौ चालीस मात्र)	इन लेक ग्रोव सिटी'', कुंडली, सोनीपत, हरियाणा,	अनुसार कुल बकाया	धरोहर राशि जमा [*] (धराज)		
(प्रोस्पेक्ट नं. 736525)	बोली वृद्धि राशि	भारत—131001 में स्थित है।	रु. 64,69,359/- (रुपये	रु. 6,11,200 ∕ —		
 `	रु. 50,000 ∕ −		चौंसठ लाख उनहत्तर हजार	1 (644 06 (114 416 641)		
	(रुपये पचास हजार मात्र)		तीन सौ उनसठ मात्र)	दो सौ मात्र)		
1. श्री जितिन	06-दिसं2022 एवं	संपत्ति यूनिट नं. डब्ल्यूएफ–90 के समस्त वह भाग	13—जून—2023	रु. 42,00,000 / — (रुपये		
पाल सिंह कोचर, 2. श्रीमती अमरजीत	रु. 15,81,417/- (रुपये पंद्रह लाख इक्यासी हजार	तथा अंश जो अधि निर्मित क्षेत्राधिमापन 1500 वर्ग	तिथि 01—जून—2023 के	बयालिस लाख मात्र)		
2. श्रामता अमरजात कौर कोचर.	चार सौ सत्रह मात्र)	फुट के साथ, भू तल, फेज 1, वाटर साइड फ्लोर्स	-13 5	धरोहर राषि जमा (धराज)		
3. श्री जगमोहन सिंह	बोली वृद्धि राशि	के रूप में विदित प्रोजेक्ट, टीडीआई लेक ग्रोव	रु. 16,27,482 /- (रुपये	₹. 4,20,000 / -		
कोचर	रु. 40,000 ∕ −	सिटी, कुंडली, 131001, सोनीपत, हरियाणा, भारत	सोलह लाख सत्ताईस हजार			

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि धराज अंतिम तिथि ई-नीलामी की तिथि / समय 28-जुलाई-2023 को 11.00-14.00 बजे 31—जुलाई—2023 को 5 बजे तक 02—अग.—2023 को 11.00 बजे से 13.00 बजे भुगतान का माध्यमः धराज भुगतानों को केवल ऑनलाइन विधि द्वारा किया जाना है। भुगतान करने के लिये आपको https://www.bankeauctions.com पर विजिट करना होगा और केवल संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति हेतु उपलब्ध लिंक के माध्यम से ही भुगतान करना होगा। टिप्पणीः प्रत्येक संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिये भुगतान लिंक पृथक है। सुनिश्चित करें कि आप उसी संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं, जिसे आपने सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदने का इरादा किया है। सफल बोलीदान होने पर, शेष भुगतान के लिये, आपको आटीजीएस 🗸 एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना होगा। खातों के विवरण इस प्रकार हैं: क) खाता का नाम:- आईआईएफएल होम फाइनेंस लि., ख) बैंक का नाम स्टैंडर्ड चार्टड बैंक, ग) खाता सं: 9902879xxxxx, उसके बाद प्रोस्पेक्ट नंबर, घ) आईएफएससी कोड

SCBL0036001, ड.) बैंक पता : स्टैंडर्ड चार्टड बैंक, 90 एम.जी. मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001 ई—नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे अपने विवरणों को पर्याप्त समय पूर्व सेवा प्रदाता की वेबसाइट ीजजचेरूधूण्ड्दामंनबजपवदेण्बवउ के साथ पंजीकृ कर लें और उन्हें इस हेतु लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी व पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपने "निविदा प्रपत्र", धराज के भुगतान विवरणों, केवाईसी एवं पैन कार्ड के प्रतियों के साथ ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत / प्रेषित करने होंगे। बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव को, स्तंभ ''बोली वृद्धि राशि'' के अंतर्गत अंकित राषि के गुणक में बढ़ाना होगा। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में बोलीदान किया जाता

तो समापन समय 5 मिनटों के लिए स्वतः ही बढ़ जाएगा। सफल बोलीदाता को बोली राषि की 25 प्रतिषत राषि (धराज का समायोजन करने के उपरान्त) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी तथा बोली राषि व शेष 75 प्रतिषत रकम प्रतिभत लेनदार द्वारा विक्रय की अभिपृष्टि किए जाने की तिथि से 15 दिवसों के अंदर जमा करनी होगी। समस्त जमाएं तथा भुगतान जो हैं, वो भुगतान के निर्धारित क्रेता को सम्पत्ति से संबंधित समस्त करों एवं दरों लागतों सहित उपकर, लागू स्टांप शुल्क, शुल्कों एवं किसी अन्य संवैधानिक देयराषि अथवा अन्य देयताओं जैसे नगर निगम कर, विद्युत प्रभारों

हेत वेबसाइट https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देख लें। विवरणों, सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रिषक्षण के लिए प्रस्तावित बोलीदातागण जो हैं, वे सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी support@bankeauctions.com, नंबर्स: @7291981124/25/26 पर संपर्क कर सकते हैं। सम्पत्ति विवरणों, संपत्ति के निरीक्षण तथा ऑनलाइन बोली इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रश्न / पृछताछ के लिए आईआईएफएल एचएफएल को टोल फ्री नं. 1800 2672 499 पर सोमवार शक्रवार के मध्य प्रातः 9.30 बजे से लेकर के साय 18.00 बजे तक कॉल करें अथवा ई-मेल: नबजपवदणेस/पपिसण्बवउ पर मेल लिखें।

लीदाताओं को सलाह है कि वे ई—नीलामी विक्रय कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी विक्रय के विस्तत नियमों एवं शर्तों तथा नीलामी आवेदन प्रण

ु उत्दद्वारा उपरोक्त ऋणकर्ताओं को सुचित किया जाता है कि वे उन घरेल वस्तुओं को 7 दिवसों के अंदर एकत्र कर लें, जो भौतिक अधिग्रहण किये जाने के समय पर प्रतिभुत परिसम्पत्ति स्थल पर पडी हुई होंगी, अन्यथा आईआईएफएल–एचएफएल किसी भी परिस्थित में सम्पत्ति की किसी हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगी। एतदद्वारा उधारकर्ता / ओं को आगे यह सचित किया जाता है कि यदि वे उक्त वस्तओं को उठाने / समेटने में विफल रहते हैं तो उन्हें विधि–व्यवस्था के अनुसार बेच दिया जायेगा। 0. उपरोक्त अनुबंधित समय के अंदर सफल बोलीदाता / नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चूक किए जाने की स्थिति में, विक्रय निरस्त कर दिया जाएगा तथा पहले चुकता की

गई राषि (धराज सहित) को जब्दा कर लिया जाएगा तथा सम्पत्ति को फिर से बेचने के लिए रख दिया जाएगा। ।. एओ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बिना कोई कारण बताए ही निविदा / नीलामी के नियमों एवं शर्तों को स्थगित / निरस्त कर सकते हैं अथवा उन्हें बदल सकते हैं। निविदा / नीलामी में किसी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा। सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 30 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना

ऋणकर्ता को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे निविदा/नीलामी की तिथि से पूर्व ऊपर अंकितानुसार राषि का अद्यतनीकृत ब्याज एवें आनुषंगिक व्ययों के साथ भुगतान कर दें। भुगता करने में विफल रहने पर, सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी/उसे बेच दिया जाएगा तथा शेष देयराषियों, यदि कोई निकलती हों, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जाएगी। स्थान : मेरठ / गाजियाबाद / सोनीपत, दिनांक : 27—जून—2023 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

"प्लस ९१ सिक्योरिटी सोल्यूसंश" ने अपना पंजीकृत ऑफिस "B 28/1, GF, शाहीन बाग, अबल फजल एनक्लेव, पार्ट-2,जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-25" से

आम स्वना

ऑफिस नं0 104,105, प्रथम तल, बालाजी चैंबर, D-246/10, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92, इस नए पते पर स्थान्तरित कर दिया है. इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन बाद से कोई भी दावा और अवरोध पुराने पते से मान्य

इलेक्टिक लोको शेड, इरोड 638002 भंडारों की आपूर्ति के लिए ई–निविदा सूचना 22/ELSD/ED/Purchase/Advt./09 निम्नलिखित ई–निविदा को आईआरईपीएस की वेबसाइट में प्रकाशित किया गया है। फर्मों से अनुरोध किया जात है कि http://www.ireps.gov.in—Login—F Tender--Goods-Services (New) पर लॉगिन करे और टेंडर के लिए कोट करें।

निविदा संख्याः 72235490

डब्ल्यूएपी 7 के लिए वीसीयू का बाइनरी डिजिटल आई/ओ कार्ड, एबीबी आईडी सं. 3EHL409319 R0002 के अनुसार लोकोमोटिव के 3-चरण एमआईसीएएस वर्ग , प्रकार - URB512 D15, नोट –यह मद आईआरईपीएस विक्रेता निर्देशिका में सीएलडब्ल्य आइटम आईडी : 2100035 के सीएलडब्ल्यू अनुमोदित स्रोतों के लिए आरक्षित है। ओईएम से प्राधिकरण पत्र निविदा वे साथ प्रस्तुत करना होगा। नियत तारीखः 12—जुलाई —2023 को 14: 30 बजे। सूक्ष्म लघू उद्यम (एमएसई) ध्यान दें माल और सेवाओं

के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसई के प्रदान किए गए लाभ लिंक http://www.ireps.gov.in-IREPS Public document-Southern Railway दिए गए विवरण के अनुसार दिए गए हैं। Follow us on : (twitter.com/GMSRailways

Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana Date: 28-07-2023

ext date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd Vs.

Dheeraj Kumar CNR NO: PBLD03-032563-2019 Whereas it has proved to the satisfactio Publication Issued To: Dheeraj Kumar Address- R/o H. No A-30 Shalimar Village delhi 110088 New Delhi n of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear in person or through counsel on 31-07-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district notice&district=ludhiana



सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि.

(शेड्युल्ड बैंक)

पंजीकृत कार्यालय: एकनाथ ठाकूर भवन, 953, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025.

लीगल नोटिस

निम्नलिखित व्यक्ति ने सारस्वत को ऑप बैंक लि. की शाखा से किराए पर लॉकर लिया है। इस नोटिस द्वारा उन्हें सूचित किया जाता है कि कई बार याद दिलाए जाने पर भी उनका लॉकर अकार्यरत है तथा इस लॉकर का किराया उनके नाम के सामने लिखित दिनांक से बकाया है उसे वह तुरंत बैंक में जमा करें।

क्षेत्र	लॉकर नं.	धारक का नाम	इस दिनांक से बकाया किराया	शाखा	
सब झोन ।	0L3C	ऋतु गर्ग	1/4/2018	लाजपत नगर, नई दिल्ली	- 1

राशि का भुगतान नहीं करती है, तो लॉकर धारक को बिना पूर्व सूचना दिए धारक के जोखिम पर और परिणाम सह वह लॉकर तोडकर खोल दिया जाएगा। तथापि देय की रकम लॉकर में प्राप्त वस्तुओंकी निजी विक्री द्वारा निपटायी जाएगी और यदि राशि कम हो, तो कानूनी कारवाई द्वारा लॉकर धारक से वसूल की जाएगी।

स्थान: मुंबई

दिनांक: 27.06.2023

प्रबंध निदेशक व सीईओ

www.readwhere.com

Peshi: 28-07-2023 CNR: PBLD03-008075-2020

In The Court Of Ms. Rasveen Kaur Judicial Magistrate First Class-18, Jalandhar

Vs.

Vs.

Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the

2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n otice&district=ludhiana हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

चार सौ बयासी मात्र)

हजार मात्र)

100.00	57.000.00.000.000		से बकाया किराया	
सब झोन ।	0L3C	ऋतु गर्ग	1/4/2018	लाजपत नगर, नई दिल्ली
रतददारा सचित (किया जाता है वि	. यदि ऊपर वर्णित व्यक्ति. अगर	इस सचना के दिनांक से 15 दि	नों के अंदर, ब्याज के साथ अपनी संबंधित

हस्ताक्षर